

प्रश्न:- यह कहना कहाँ तक सही होगा कि अमेरिकी संविधान की प्रत्येक विशेषता अन्तोगत्वा अंग्रेजी उद्गम की थी?

उत्तर:- ब्रिटिश और अमेरिकी लोगों के बीच ऐतिहासिक बोध एवं सांस्कृतिक मूल्यों में समानता थी अधिकतर अमेरिकी ब्रिटिश अमेरिकी मूल के ही थे इसलिए बहुत ही स्वाभाविक था कि संविधान के विषय में उनकी सोच, ब्रिटिश दृष्टिकोण के करीब थी किंतु चूंकि ब्रिटिश तथा अमेरिकी लोग दो भिन्न भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थितियों की उपज थे इसलिए उनके संविधान के स्वरूप में कुछ अंतर होना भी आवश्यक था।

अमेरिकी लोगों ने ब्रिटिश परम्परा से ही विधि के शासन की अवधारणा ली थी अमेरिकी लोगों के लिए भी विधि के शासन का अत्यधिक महत्व था उन्होंने ब्रिटिश जनमानस का भी आरंभ में इसी आधार पर विरोध किया था कि उन्होंने विधि के शासन का उल्लंघन किया है।

उसी प्रकार अमेरिकी लोगों में ब्रिटिश से ही यह सीखा था कि कर लगाने का अधिकार जनता के प्रतिनिधि को हैं। इसी आधार पर उन्होंने उस प्रसिद्ध नारे को इजाद किया था कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, इसके अतिरिक्त अमेरिकी संविधान में स्थापित बिल ऑफ राइट्स पर हम ब्रिटिश मैग्नार्कार्टा का प्रभाव मान सकते हैं।

वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी लोगों का परिवेश ब्रिटिश से थोड़ा अलग हो चुका था वे यूरोप से हजारों मील दूर तक विशाल महाद्वीप में स्वतंत्र रूप से रहने के आदि हो चुके थे इसलिए उनके लिए व्यक्ति स्वतंत्रता का अत्यधिक महत्व था यहीं वजह है कि उन्होंने ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता की अवधारणा को अस्वीकृत करते हुए न्यायपालिका की शक्ति पर विशेष बल दिया तथा शक्ति सलंयन की जगह शक्ति पृथक्करण की अवधारणा को अपनाया।

इसके अतिरिक्त ब्रिटिश की तुलना अमेरिकी राष्ट्र का आकार कहीं बड़ा था तथा उसका बहुलवादी चरित्र था इसलिए ब्रिटेन से, प्रथम अमेरिकी संविधान ने एकात्मक व्यवस्था की जगह संघीय व्यवस्था को अपनाया।

इसी प्रकार हम यह कह सकते हैं कि, अमेरिकी संविधान को आधारभूत प्रेरणा ब्रिटिश संविधान से मिली थी किंतु यह कहना तार्किक नहीं कि अमेरिकी संविधान की प्रत्येक विशेषता ब्रिटिश उद्गम की थी।